



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण 1946 (श10)

(सं० पटना 738) पटना, मंगलवार, 6 अगस्त 2024

विधि विभाग

अधिसूचना

6 अगस्त 2024

सं० ल०जी०-01-18/2024-4832/लेज: ।— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक 05 अगस्त, 2024 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

(बिहार अधिनियम 17, 2024)

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 में संशोधन करने हेतु अधिनियम :-

प्रस्तावना:— चूँकि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 में शिक्षक की परिभाषा को व्यापक किया जाना आवश्यक है। साथ ही साथ राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रभावी किया जाना भी अनिवार्य है।

अतः भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में, बिहार की विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ।—

(क) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा।

(ख) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 की धारा-2 का संशोधन।— बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 20, 2018) की धारा 2 की उपधारा (vi) निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा।

2 (vi) “शिक्षक” से अभिप्रेत है प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, एवं विश्वविद्यालय या अंगीभूत कॉलेज या राज्य सरकार द्वारा संचालित विभाग, कॉलेज या उच्च शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्रदान करने वाले प्राचार्य।”

3. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 की धारा-8 का संशोधन।— बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 में, धारा (8) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

8 “आयोग, पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) तथा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार बिहार के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनुसंशा करेगा। आयोग राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति की अनुसंशा भी करेगा। आयोग शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि उक्त अधिनियमों एवं उसके अधीन बनाए गए परिनियमों के अधीन आयोग के लिए विहित किया गया है।”

4. व्यावृत्ति।— अधिनियम की धारा 2 एवं धारा 8 में उक्त संशोधन के होने के बावजूद इन धाराओं के अन्तर्गत पूर्व में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाई विधि पूर्ण किया गया समझा जायेगा या की गई समझी जायेगी और संशोधन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा या की जाएगी।

अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

6 अगस्त 2024

सं० एल०जी०-01-18/2024-4833/लेज:।— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा dated-05th August, 2024 को अनुमत बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024 (बिहार अधिनियम 17, 2024) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

(Bihar Act 17, 2024)

BIHAR STATE UNIVERSITY SERVICE COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 2024.

AN

ACT

To amend Bihar State University Service Commission Act, 2017.

Preamble:- Whereas it is expedient to widen the definition of teacher in the Bihar State University Service Commission Act, 2017. As well as it is also expedient to make it affective for the appointment of teacher in all the University and Higher Educational Institutions of the State.

It is hereby enacted in the Seventy-Fifth year of the Republic of India, by the legislature of Bihar as follows:-

1. Short title and commencement.—

(a) This Act may be called the Bihar State University Service Commission (Amendment) Act, 2024.

(b) It shall come into force immediately on publication in official gazette.

2. Amendment in section 2 of Bihar State University Service Commission Act, 2017.— Sub section (vi) of section 2 of the Bihar State University Service Commission Act, 2017 shall be substituted as follows :-

2 (Vi) 'Teacher' means Professor, Associate Professor, Assistant Professor and Principal imparting instruction in department, college or Higher Education Institution maintained by the university or constituent college or State Government;

3. Amendment in section 8 of Bihar State University Service Commission Act, 2017.— Section 8 of the Bihar State University Service Commission Act, 2017 shall be substituted as follows :-

8 "The Commission will make recommendations for the appointment of teachers in the Universities and Constituent Colleges of Bihar as prescribed under the Patna University Act, 1976 (Bihar act 24, 1976) and the Bihar State University Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976). The commission will also make recommendation of appointment of teachers in Other Universities/Higher Education Institutions as notified by the State Government from time to time. The commission shall discharge such functions for the appointment of teacher as prescribed for the Commission, under the said Acts and the Statutes made thereunder."

4. Savings.—Notwithstanding the above amendment in section 2 and section 8 of the act anything done or any action taken under this section shall be deemed to have been legally completed done or shall be deemed to have been done and shall or will not be question on the basis of amendment.

ANJANI KUMAR SINGH,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 738-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>